

Date: 03rd June, 2021

To,
Department of Corporate Services,
Bombay Stock Exchange Limited,
Ground Floor, P. J. Towers,
Dalal Street Fort,
Mumbai- 400001

(Scrip Code: 531449)

<u>Sub: Newspaper Advertisement- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015</u>

In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of News Papers- Jansatta (Hindi Newspaper) and Financial Express (English News paper) dated 02.06.2021 in which Notice of Dispatch of Postal Ballot Notice is Published and a copy of the same is available on the website of company i.e. www. Grmrice.com

This is for yours information and record.

For GRM Overseas Limited

Balveer Singh Company Secretary M. No. 59007

FINANCIAL EXPRESS

Notice for Auction of Assets

NEWGEN SPECIALTY PLASTICS LTD. (in Liquidation)

Reg. Off. Of the Company: A-47 Aruna Park Shakarpur, Near Sanjay Park, East Delhi -110092 Liquidator's Address: 83-B, Pocket-IV, Mayur Vihar Phase-1, Delhi-110091 Email: skbmica@gmail.com | Contact No.-011-43011782

E-Auction - Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Date and Time of Auction: 23rd June. 2021 from 03.00 PM to 5.00 PM Last Date for submission of Bid: 19th June, 2021 (With unlimited extension of 5 minutes each)

Sale of Assets and Properties owned by NEWGEN SPECIALTY PLASTICS LTD (in Liquidation) forming part of Liquidation Estate in possession of the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Delhi vide order dated January 07, 2021. The sale of properties will be conducted by the undersigned through the e-auction platform. Amount in Rs.

SI No.	Description of Assets	Reserve Price	EMD	Bid Incremental Value
1.	Plant & Machinery situated at	1,86,30,000.00	18,63,000.00	1,00,000.00
	E-24 & 25, Site-C, Surajpur Industrial Area, Greater Noida			
	F-46, Site-C, Surajpur Industrial Area, Greater Noida			
	G-24, Site-IV, UPSIDC Kasna, Greater Noida		10	9
	Plot 42 & 43, Ecotech Ext-I Greater Noida		ii.	
2.	Furniture & Fixture and Office Equipments situated at	3,00,000.00	30,000.00	20,000.00
	E-24 & 25, Site-C, Surajpur Industrial Area, Greater Noida		0	9
	F-46, Site-C, Surajpur Industrial Area, Greater Noida			
	G-24, Site-IV, UPSIDC Kasna, Greater Noida		1	
1	Plot 42 & 43. Ecotech Ext-I Greater Noida		19	

Terms and Conditions of the E-auction are as under:-

- E-auction will be conducted on "ASIS WHERE IS", "ASIS WHAT IS", and "WHATEVER THERE IS" BASIS.
- 2. The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e- auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website https://eauctions.org/, Contact: Mr. Ankit (M-9873694065) on Ankit@claim-bridge.com or Liquidator's office.
- 3. The tentative list of assets is given in the Bid documents. Please download Bid documents for full details from
- For Visits to factory and other assets, write mail to liquidator office at skbmica@gmail.com enclosing Photo Id.

Place: Delhi केनरा बैंक Canara Bank

Date: 02/06/2021

Triangle Mall, Palam Vihar,

Gurugram-122017

Regn.No.: IBBI/IPA-002/IP-N01064-C01/2017-18/10298

DEMAND NOTICE Notice U/s 13(2) of the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Liquidator

Sandeep Kumar Bhatt

You the below mentioned borrowers have availed loan by mortgaging the schedule mentioned property and you the below mention have stood as borrower/co-borrower, guarantor for the loan agreement. Consequent to the default committed by you, your loan account has been classified as non- performing asset under the provisions of the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (in short SARFAESI Act). The Authorized Officer of Canara Bank had issued Demand Notice u/s 13(2) read with section 13(13) of the SARFAESI Act to the address furnished by you. The notices sent to you by the Registered post are receiver back returned unserved. The contents of the said notices are that you had committed default in payment of the various loans guaranteed to you Therefore, the present publication carried out to serve the notice as the provision of Section 13(2) of SARFAESI Act and in terms of provision to the rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002:-

Name and Address of Borrower / Mortgagor / Guarantor	Description of the Movable / Immovable Properties	Amt. Due as per Demand Notice	Date of
Borrower: M/s Balaji Tours (Prop.	Movable - 01 No TOYOTA ETIOS Taxi Reg. No. HR 55	Rs 35,85,104/-	Demand
Ranvir Singh S/o Ghasiram), House	X 1927, 01 No TOYOTA LIVA Taxi Reg. No. HR 55 X	(Rupees Thirty Five Lacs	Notice
No. 70, Swaroop Garden, Rajendra	8022, 01 No MARUTI BREZZA Reg. No. HR 26 DE	Eighty Five Thousand One	21.03.2021
Park, Gurgaon, HR-122001	5912 . Name of Title Holder (for all) :- Ranvir Singh.	Hundred Four Only)	
Mortgagor: Mrs Smelata W/o Shri	Immovable - Property situated at House No. 70,	together with further interest	
	Khasra No. 138, Swaroop Garden, Rajendra Park,	and incidental expenses and	Date of
Garden, Rajendra Park, Gurgaon, HR-	Gurgaon, Haryana - 122001, Name of Title	costs.	NPA
122001.	Holder:- Mrs Smelata W/o Shri Ranvir Singh.		21.09.2020

You are hereby called upon to pay Canara Bank within the period of 60 days from the date of publication of this Notice the aforesaid amount with interest and cost falling which State Bank of India will take necessary action under the Provisions of the said Act against all or any one or more of the secured assets including taking possession of secured assets of the borrowers, mortgagors and the guarantors. The power available to the State Bank of India under the said act include (1) Power to take possession of the secured assets of the borrowers/guarantors including the rights to transfer by way of lease, assignment of sale for releasing secured assets (2) Take over management of the secured assets including rights to transfer by ways of lease, assignment or sale and realize the secured assets and any transfer as of secured assets by State Bank of India shall vest in all the rights and relation to the secured assets transferred as it the transfer has been made by you. In terms of the Provisions of the Section 13(13) of the said act, you are hereby prohibited from transferring, either by way of sale, lease or otherwise (other than

in the normal course of your business), any of the secured assets as referred to above and also hypothecated/mortgaged to the Bank without

prior consent of the State Bank of India. "Your kind attention is invited to provisions of sub-Section (8) of Section 13 of the SARFAESIAct where under you can tender the entire amount of outstanding dues together with all costs, charges and expenses incurred by the Bank only till the date of publication of the notice for sale of the secured asset(s) by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty. Please also note that if the entire amount of outstanding dues together with the costs, charges and expenses incurred by the Bank is not tendered before publication of notice for sale of the secured assets by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty, you may not be entitled to redeem the secured asset(s). The notice is without prejudice the to the Bank's right to initiate such other actions or legal proceedings as it deems necessary under any other applicable

Date: 02.06.2021 Place: Gurugram

Authorised Officer, Canara Bank OLD BUS STAND ALIGARH BRANCH 13/6 GT ROAD ALIGARH -202001



Ph. No. 8477000352, E-mail- vjalig@bankofbaroda.co.in Bank of Baroda

UNDELIVERED DEMAND NOTICE NOTICE U/S 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL

ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT-2002

The Borrowers/Guarantors mentioned below have availed credit facilities from BANK OF BARODA OLD BUS STAND ALIGARH and secured by way of mortgaged of under mentioned properties. The Borrowers/Guarantors failed to adhere to terms and conditions of sanction. The account became irregular and classified as NPA as per RBI guidelines. The Bank intends to enforce the said property mortgaged by you and issued demand notice on mentioned below dated under registered post/speed post which were not served. Hence this publication issued. Borrowers/Guarantors are called upon to pay the amount mentioned hereunder with contractual rate of interest, costs, charges etc., thereon within 60 days from the date of publication failing which the undersigned will be constrained to initiate auction of

the mortgaged property under the provision of said act to realize our Bank's dues. The borrower's attention is invited to provisions of Sub Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset. Date of Amount Due as per Name of the **Details of Mortgage**

	Borrower/Guarantor	Property	Demand Notice	Demand Notice
1	Prop: Mr. Sunil Kumar S/o Laxman Singh, Part of khet no 64 Village Asharafpur Jalal, Pargana & tehsil Koil, District Aligarh- 202001 Guarantor / Mortgagor: Mrs. Shila Devi W/o Laxman Singh Part of khet no64		Date of	Outstanding- Rs. 3749902.26 as on 31.03.2021 + interest w.e.f. 31.03.2021 & other misc, expenses Rs. 164177/- as on 31.03.2021 + interest w.e.f. 30.03.2021 & other misc, expenses
	W/o Manoj Kumar Part of khet no143/1 Sarsol, outer chu-ngi Mohan Nagar Colony Near Golden bright School G T Road District Aligarh - 202001	Equitable mortgage dated 01-11-2019 of residential house at Part of khet no. 143/1, Sarsol, Outer chungi, Mohan Nagar Colony, Near Golden Bright School, G.T. Road, Pargana & Tehsil - Koil, District Aligarh having an area of 83.61 Sq. Mtr in the name		Outstanding- Rs. 2692154.17 as on 31.03.2021 + interest w.e.f. 30.03.2021 & other misc. expenses

Co-Borrower Mr. Manoj Kumar S/o Shiv having an area of 83.61 Sq Mtr in the name Date of Charan, Part of khet no. - 143/1 Sarsol, of Mrs. Babli Devi W/o Manoj Kumar NPA

outer chungi Mohan Nagar Colony Near bounded as under: East. Plot Seller, Meas- 31.03.2021

Golden bright School G T Road District uring this side 20 feet, West: Road 20 feet

Plot Seller, Measuring this side 45 feet, South: House of Shankar Lal, Measuring

You are advised (1) to collect the original notice/cover addressed to you, and returned by Courier/Postal Authorities, from the undersigned for more and complete details and (2) to pay the balance outstanding amount with interest and costs etc., within 60 days from the date of notice referred to above to avoid further action under the SARFAESI Act.

Wide, Measuring this side 20 feet, North

Date: 01.06.2021

Indian Overseas Bank

JANAKPURI BRANCH : 21, B-1 Block, Community Centre, Janakpuri, New Delhi-110058,

Ph: 011-25594284/ 25511667, Email: iob0544@iob.in DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (SARFAESI Act) read with Rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (Rules)

. Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Indian Overseas Bank under SARFAESI Act and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3, issued Demand Notice under Section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrowers/ mortgagors/ guarantors listed hereunder (hereinafter referred to as the "said Borrowers"), to repay the amounts mentioned in the Notice, within 60 days from the date of receipt of Notice, as per details given below

. The said Notices have been returned undelivered by the postal authorities /have not been duly acknowledged by the borrowers/mortgagors/guarantors.* Hence the Bank by way of abundant caution is effecting this publication of the demand notice. The undersigned has, therefore, caused these Notices to be pasted on the premises of the last known addresses of the said Borrowers/ mortgagors/ guarantors as per the said Act. Copies of the said Notices are available with the undersigned and the said Borrowers/ mortgagors / guarantors, may, if they so desire, collect the said copies from the undersigned on any working day

Against the above background, Notice is hereby given, once again, to said Borrowers/ mortgagors/ guarantors to pay to Indian Overseas Bank, within 60 days from the date of publication of this Notice, the amounts indicated/payable as given below under the loan & other documents. As security for due repayment of the loan, the following assets have been mortgaged to Indian Overseas Bank by the respective parties as below.

SI.	Name of the Borrowers/Mortgagors/	Total outstanding*	Description of Secured	Date of
No	Guarantors with Address		Assets	Demand Notice
1.	Mr. Rohit Kumar Gupta, Mrs Gunjan Gupta GH-2/653 First Floor, Sector-28, Rohini, Shibabad Daulat Pur, New Delhi-110042 and Mr. Rohit Kumar Gupta, Mrs Gunjan GuptaDDA Flat No.22, Ground Floor, Pocket GH-1, sector 28, Rohini, Delhi-110042	as on 31.03.2021	DDA Built property Flat No.22, Ground Floor Sanskriti Apartments, Pocket GH 1, Sector-28, LIG Category, New Delhi-110042	

 If the said borrowers/mortgagors/guarantors fall to make payment to Indian Overseas Bank as aforesaid, then Indian Overseas Bank shall proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the SARFAESI Act and Rules entirely at the risks, costs and consequences of the said borrowers/ mortgagors/ guarantors.

Further, the attention of borrowers/ mortgagors / guarantors is invited to provisions of Sub-section(8) of the Section 13 of the Act, in respect of time available to them to redeem the secured assets.

The said Borrowers/ mortgagors / guarantors are prohibited under the SARFAESI Act from transferring the secured assets. whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of Indian Overseas Bank. Any person who

contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules shall be liable for imprisonment and/ or fine as given under Section 29 of the Act. Date: New Delhi Authorized Officer. Place: 01.06.2021

Indian Overseas Bank

GRM OVERSEAS LIMITED CIN: L74899DL1995PLC064007

Registered Office: 128, First Floor, Shiva Market Pitampura North Delhi-110034 Website: www.grmrice.com | Email id: grmricel@gmail.com Tel No: 011-47330330 | Fax No: 011-(0180 - 2653673)

POSTAL BALLOT NOTICE

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 110 and other-applicable provisions, if any, of Companies Act, 2013 read with Rule 22 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended from time to time read with the latest General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 and the rules made thereunder on account of the threat posed by COVID-19 issued by the Ministry of Corporate Affairs('MCA Circulars') and pursuant to the other applicable laws and regulations, the Company shall seek approval of its members by way of Postal Ballot in respect of the Special business set out in the Postal Ballot Notice dated May 27, 2021

pandemic, the Company will send the Postal Ballot notice in electronic form only and the communication of the assent or the dissent of the members will also take place only through the remote e-voting system.

The Company has on June 01, 2021 completed dispatching of Postal Ballot Notice by email only to the members whose names appear in the Register of members/List of Beneficial Owners as received from NSDL and CDSL and whose email addresses are available with the Company as on (Friday), May 28, 2021 ('cut-off date').

voting only. A copy of Postal Ballot Notice is also available on the website of the company www.grmrice.com and on the website(s) of the stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, where the company's shares are listed and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com Please note that in compliance with the provisions of section 108, 110 and

to cast their vote electronically and in a secure manner. The members, who are holding shares in physical/electronic form and whose email addresses are not registered, shall register their email-id with the

Registrar and Transfer Agent of the Company/their respective Depository members can cast their vote through remote e-voting

transparent manner. The remote e-voting period shall commence on June 03, 2021 at 09:00 A.M. and end on July 02, 2021 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on July 02, 2021. If any Member casts his vote by remote e-voting after 5:00 P.M. on July 02, 2021, then that remote e-voting will not be considered as valid vote and will be

treated as if reply from such member has not been received. The result of the Postal Ballot will be declared on or before Saturday, July 03, 2021. The aforesaid result along with the Scrutinizer's report would be

of NSDL immediately after the result is declared. The Company will of the Company are listed.

NSDL by email at evoting@nsdl.co.inor call on.: 1800 22 44 30 or 1800 1020 990. Members may also write to the Company at Investor.grm@gmail.com

Sd/-Date: 01st June, 2021 **Atul Garg** Place: New Delhi (Managing Director)

NOIDA SOFTWARE TECHNOLOGY PARK LIMITED CIN-U72200DL1999PLC098726 (COMPANY IN LIQUIDATION) Liquidator:Mr.Alok Kumar Agarwal RegisteredOffice:Scinda Villa, Sarojini Nagar, New Delhi, DL-110023 Email ID: nstpl@ascgroup.in

THE ASSETS OF THE COMPANY IN LIQUIDATION ARE BEING SOLD ON 'AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS, WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS Date and Time of E-Auction: July 01,2021at 03:00 pm IST to 04:00 pm IST (With unlimited extension of 5 minutes each)

Block	Assets		ervePrice Rs. Lacs)	EMD Amount (In Rs. Lacs)	Value (In Rs. lacs)
Α	1. Land at Greater Noida Unit	1.	1490.83		
	2. Plant & Machinery	2.	493.59		
	3. Securities & Financial Assets	3.	39.27		
	4. Scrap of building at Greater Noida Unit	4.	10.86	203.45	10.00
		Total	l: 2034.55		
В	Land at Greater Noida Unit		1490.83	149.09	10.00
С	Plant & Machinery		493.59	50.44	10.00
D	Securities & Financial Assets		39.27	3.93	1.00
E	Scrap of Building at Greater Noida Unit		10.86	1.08	0.50

NOTE: Further the above Sale is subject to terms & conditions mentioned in the process document, uploaded on the website of "IQUIPPO SERVICES LIMITED". For details please visit www.iquippo.com or www.nstpl.co

E-Auction Date: July 01, 2021

Escalation: If the query is not responded on the phone number given above, the WhatsApp message can be sent to +91-9711191523.

Terms and Condition of the E-auction are as under

1. E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" AND "WITHOUT RECOURSE BASIS" through approved service

2. The complete and detailed information about the assets of the company are available in

the "E-Auction Process Document" as Annexure - VI to the document, which is available on the web sites i.e. www.iquippo.com. This sale notice must be read along with the "E Auction Process Document" to get the complete information. 3. The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e

auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website www.iquippo.com Contact: Mr. Premsukh a +91-8860041888 & premsukh@iquippo.com (On going to the link www.iquippo.com interested bidders will have to search for the mentioned company by using either one o the two options, (I) Company's name (Noida Software Technology Park Limited), or by, (II) State and property type).

4. (a) In case there is at-least one Eligible Bidder for Block A, the e-auction of all other blocks will stand cancelled and EMD received for all other Blocks, if any, will be returned to

(b) In case, there is no eligible bidder for Block Athen E-Auction of Blocks B, C, D & E will

be conducted individually. 5. The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent

inquiries regarding the title of property, dues of local taxes, electricity and water charges maintenance charges, licenses if any and inspect the property at their own expenses and satisfy themselves. The properties mentioned above can be inspected by the prospective

bidders at the site with prior appointment, contacting 8447079462 (Ms. Mahima Tulsian). 6. The intending bidders are required to deposit Earnest Money Deposit (EMD) amoun either through DD/NEFT/RTGS in the Account of "NOIDA SOFTWARE TECHNOLOGY PARK LIMITED IN LIQUIDATION", Account No.: 0602002100319936, Puniab Nationa Bank, New Delhi, Branch: Okhla, IFSC Code: PUNB0060200, or through DD drawn or any Scheduled Bank in the name of NOIDA SOFTWARE TECHNOLOGY PARK LIMITED

Format B as given in the Complete E-Auction process document. 7. The intending bidder should submit the evidence for EMD Deposit or Bank Guarantee and Request Letter for participation in the E- Auction along with Self attested copy of (1) Proof of Identification (2) Current Address-Proof (3) PAN card (4) Valid e-mail ID (5 Landline and Mobile Phone number (6) Affidavit and Undertaking, as per Annexure 1 (7) Bid Application Form as per Annexure II (8) Declaration by Bidder, as per Annexure III, the formats of these Annexures can be taken from the Complete E-Auction process

address given below before 7:00 PM of June 23, 2021 Services Ltd.) will provide User id and password by email to eligible bidders.

closing time will automatically get extended for 5 minutes with unlimited extension. The bidder who submits the highest bid amount (not below the reserve price) on closure of e-Auction process shall be declared as the Successful Bidder and a communication to that effect will be issued through electronic mode which shall be subject to approval by the

10. The EMD of the Successful Bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders, who have participated in the bidding process, shall be refunded. The EMD shall not bear any interest. The Liquidator will issue a Letter of Intent (LOI) to the Successful Bidder and the Successful Bidder shall have to deposit the amount deposited (EMD + Any Other Amount) by the Successful Bidder

11. The Successful Bidder shall bear the applicable stamp duties/transfer charge, fees etc. And all the local taxes, duties, rates, assessment charges, fees etc. in respect of the property put on auction. 12. The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or

regulations made thereunder. 15. The interested Bidder(s) shall be provided access to the data room ("Data Room"

16. E- auction date & Time July 01, 2021 from 3.00 p.m. to 4.00 p.m. (with unlimited extension of 5 min)

Alok Kumar Agarwa Liquidator Noida Software Technology Park Limited- in Liquidation

IBBI Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00059/2017-2018/10137 DATE: June 02, 2021 Address for correspondence: C-100, Sector-2, Noida, U.P.-20130



IX/6093-94, Main Road Gandhi Nagar, Near Gandhi Nagar Police Station. Delhi-110031 Tel.: 22072588, 7683054724 Email: gandel@bankofbaroda.com

Qty.

PUBLIC NOTICE

This is to inform that the general public that Bank of Baroda, Gandhi Nagar, Delhi, intends to accept the under mentioned property standing in the name of (1) Mr. Manvinder Singh S/o Mr. Harbhajan Singh (2) Mr. Jasvinder Singh S/o Mr. Harbhajan Singh (3) Mrs. Gurjeet Kaur W/o Mr. Harbhajan Singh (4) Mr. Harbhajan Singh S/o Mr. Harnam Singh as security for a loan / Credit facility requested by one of its customers. In case, anyone has got any right/title/interest/claims over the under mentioned property, they are advised to approach the Bank within 10 days along with necessary

proof of substantiate their claim. If no response is received within 10 days, it is presumed that the property is free of any

charge/claim/encumbrance and Bank shall proceed with the mortgage. DETAILS OF PROPERTY

House No. 30, Block C-2, Model Town III, Delhi - 110009, Measuring 450 sq. yards, Two & Half Storey property. Authorised Officer, BANK OF BARODA

NORTHERN RAILWAY Tender Notice No. 15 / 2021-2022 Dated: 01.06.2021

Invitation of Tenders through E-Procurement system Principal Chief Materials Manager, Northern Railway, New Delhi-110001, for and

on behalf of the President of India, invites e-tenders through e-procurement system for supply of the following items:-S. Tender **Brief Description** Closing

No.	No.	The same west assessmined in	50001	Date
01	07200101	CUSHION FOR BACK REST TRANSVERSE SIDE FOR GS COACH	6643 NOS	24.06.21
02	09212047	MODIFIED ELASTOMERIC PAD	217950 NOS	25.06.21
03	19201436	SET OF SUSPENSION BEARING FOR HITACHI/ TAO	381 SET	28.06.21
04	09212065	FOOT STEP COMPLETE FOR BVZC WAGON	1400 NOS	28.06.21
05	09212114	LOCK, DRAWING NO.SK-62724	3744 NOS	28.06.21
06	09212134	SHANK WEAR PLATE, DRAWING NO.SK-62724	28397 NOS	29.06,21
07	09212040	SPRING PLANK DRAWING NO.SK-69594	630 NOS	30.06.21
08	09212056	BOLSTER BOTTOM GUSSET	1354 NOS	30.06.21
09	09212577	7/8" DIA.LOCK BOLT	33070 SET	30.06.21
10	09213054	READY MIXED PAINT, BRUSHING, BITUMINOUS, BLACK	130336 LTR	30.06.21
11	09212121	STRIKER CASTING WEAR PLATE	39296 NOS	30.06.21
12	09212536	SPRING PLANK FOR CASNUB 22 HS BOGIE	479 NOS	30.06.21
13	09212285	SLIDING DOOR ARRANGEMENT	104 NOS	02.07.21
14	09212321	POH KIT FOR C3W TYPE DISTRIBUTOR VALVE	4649 SET	02.07.21
15	09212573	DRAFT GEAR ARRANGEMENT	602 NOS	02.07.21

1180/2021 Serving Customers with a Smile

DEUTSCHE BANK AG DEMAND NOTICE

Demand Notice under section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial

Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (herein after as the said "Act") Borrowers: 1. Mr. Ujjwal Verma 2. Mrs. Geeta Verma, Residential property being: - Flat No. 58, First Floor, Gautam Apartment, Gautam Nagar, New Delhi – 110049 Having area of 1050 Sq. Ft. appx. (Property). Yards Appx which is butted and bounded as follows:- North By:

1,27,50,000/- (Rupees One Crore Twenty Seven Lakh Fifty Thousand only) Whereas Deutsche Bank AG, having one of its places of business at Ground & 14th Floor, Hindustan Times House, 18-20, Kasturba Gandhi Marq New Delhi - 110001 (hereinafter referred as "Bank") had extended Loan facility to you, the Addressee. The said Loan facility is secured inter alia by way of mortgage over the immovable residential property being All that right, title and interest of property bearing residential property bearing Flat No.- 58, First Floor, Gautam Apartment, Gautam Nagar, New Delhi - 110049 Having area of 1050 Sq. Ft. appx. (Property) Yards Appx (hereinafter referred to as the "Secured Asset").

per the books of accounts maintained in the ordinary course of Banking business by the Bank there exists an outstanding amount of Rs. 1,40,47,135.37/- (Rupees One Crore Forty Lakhs Forty Seven Thousand One Hundred Thirty Five And Paisa Thirty Seven Only) by way of Outstanding Principal, Arrears (including accrued late charges) and interest thereon till the receipt of complete dues. In addition to the said outstanding dues, you are also liable to pay Interest and Penal interests

you the Addressee the loan account has been classified by the Bank as Non Performing Asset within the norms stipulated by the Reserve Bank of India. In view of the above default, the Bank hereby calls upon you the Addressee to discharge in ful your liabilities towards the Bank by making the payment of the entire outstanding dues including up to date interest, costs, and charges within 60 (sixty) days from the date of

due in future till the entire outstanding dues are paid. Due to persistent default on the part of

a) Take possession of the secured Asset including the right to transfer by way of lease. assignment or sale for realizing the Secured Asset. b) take over the management of the secured assets of the borrower including the right to

transfer by way of lease, assignment or sale and realize the secured asset c) Appoint any person (hereafter referred to as the manager), to manage the Secured Asset

the possession of which has been taken over. d) Require at any time by notice in writing, any person who has acquired the Secured Asset and from whom any money is due or may become due from you the Addressee, to pay to the

That please be informed that you are hereby restrained from alienating (including by way of transfer, sale, lease or otherwise) or creating third party interest or dealing with the Secured Asset in any manner except with specific prior written permission from Bank. Be informed that any contravention thereof shall be punishable with imprisonment upto a period of one vear or with fine or with both.

exercise any or all of the rights referred to above against you the Addressee entirely at your risk, responsibility and costs.

Date: 02/06/2021 Place: New Delhi For Deutsche Bank AG (Danish Khan) **Authorised Office**

CIN: L15549DL1962PLC003726, Regd. Office: Office No. 4, FF, CSC Pocket

E Market Mayur Vihar, Phase-2, Delhi - 110091 Email: oakeymohan@gmail.com contact@oakeymohan.com, Website: www.oakeymohan.in, Tel.: 0120-2657298; Fax: 120-2659155 NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Regulation 29 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, tha a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday the 28th June 2021 at 2pn at Mohan Nagar Ghaziabad UP inter-alia to consider approve and take on record the audited Financia Results for the quarter and year ended 31st March

company at www.oakeymohan.in and coy of the notice has been sent to Metropolitan Stock Exchange of India Ltd at listing compliance@msei.in For John Oakey And Mohan Limited (Surendra Kumar Seth)

The Notice is also available on the website of the

Company Secretary Place: Delhi Mno FCS3650 Dated 01st June, 2021

S. E. RAILWAY - TENDER e-Tender Notice No.: 4271-GRC-CE-C-

SO-09-2021, dated 31.05.2021, e-Tender is invited by Chief Engineer (Con)/S/GRC, S.E.Railway for and on behalf of the President of India for the following work Following tender has been uploaded on website www.ireps.gov.in The tender will be closed at 12.00 hrs. on due date. Brief description of work: Rourkela Yard remodeling work: Additional work for construction of Foot Over Bridge, Platform shelter, Lift duct, Water hydrant, Boundary wall Approach road, Pathway, Cable duct for S&T, Drain cum Retaining wall and other allied works at Rourkela Yard in connection with 4th & 5th line of Rourkela-Bonda mumda section of S.E.Railway. Approximate Cost : ₹ 15.24 Crores. Completion Period: 12 Months. Closing Date: 22.06.2021. Interested tenderers may visit website www.ireps.gov.in for full detail. description/specification of the tender and submit their bids online. In no case manua tenders for this work will be accepted. N.B.: Prospective Bidders may regularly visit www.ireps.gov.in to participate in all other



CIN: L45202PB1974PLC003516 Regd. Office: C-127, IV Floor, Satguru Infotech, Phase VIII, Industrial Area,

S.A.S. Nagar (Mohali), Punjab - 160 062 Tel.: 0172-4650377, Fax: 0172-4650377 Email: kaushik.gagan@salautomotive.in Website: www.salautomotive.in

NOTICE Pursuant to Regulation 47 of the SEBI

Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, NOTICE is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on 8th June, 2021 (Tuesday), inter alia, to consider and approve, the Audited Financial Results of the Company for the year ended 31" March, 2021 and to recommend dividend, if any, for the said year. The above information is available on

www.salautomotive.in and also on the website of the stock exchange at www.bseindia.com. The outcome of the meeting shall also

the website of the Company at

be made available on above mentioned website. For SAL AUTOMOTIVE LTD.

(Gagan Kaushik) Company Secretary

Place: S.A.S.Nagar (Mohali) Date : 01" June, 2021

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

any manner whatsoever

Corp. Office: 487/63, 1" Floor, National Market, Peeragarhi, New Delhi-110087 CIN: L67120DL1992PLC048983

S.	DADTICUII ADC		Quarter ended	Financial Year ended		
No	PARTICULARS	31.03.2021 Audited	31.12.2020 Unaudited	31.03.2020 Audited	31.03.2021 Audited	31.03.2020 Audited
1	Total income from operations (net)	4,377.19	3,445.84	2,788.12	13,128.07	14,636.32
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary Items)	53.57	60.21	85.28	214.65	224.47
3	Net Profit for the period before tax, (after Exceptional and Extraordinary items)	53,57	60.21	85.28	214.65	224.47
4	Net Profit for the period after tax, (after Exceptional and Extraordinary items)	53.57	60.21	85.28	171.19	161.01
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Proifit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)	53.57	60.21	85.28	171.19	161.01
6	Equity Share Capital	5,197.06	5,072.06	5,072.06	5,197.06	5,072.06
7	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	-	-		8,236.71	7,565.34
8	Earnings per share (of Re. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) (1) Baisc (2) Diluted	0.010 0.010	0.012 0.012	0.017 0.017	0.033 0.033	0.032 0.032

(Rs. In Lakhs) Financial Year ended Quarter ended **PARTICULARS** 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020 Unaudited Audited Audited Audited Audited 5,532.53 3,941.57 3,097.85 15,181.95 16,536.58 Total income from operations (net) Net Profit for the period 98.56 50.69 39.27 175.77 217.77

Audited Consolidated Financial Results For The Quarter & Year Ended on March 31, 2021

(2) Diluted

(for continuing and discontinued operations)

1 The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting

2 The Company operates in one segment only, the clause relating to segment wise reporting is not applicable to the Company.

3 The above Audited Financial Results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of applicable Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended as specified in section 133 of the Companies Act, 2013.

of these financial results has used internal and external sources on the expected future performance of the Company 5 EPS has been calculated in accordance with Ind AS 33 as notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) in the Companies (Indian

relating to the possible future uncertainties in the global economic conditions because of this pandemic, the Company, as at the date of approval

Accounting Standards) Rules, 2015 as amended as specified in section 133 of the Companies Act, 2013.

Dheeraj Kumar Shishodia Managing Director DIN: 07847284

0.0334

0.0334

0.0221

0.0221

0.0077

0.0077

0.0100

0.0100

Place: Gurugram

In terms of MCA Circulars and on account of the threat posed by COVID-19

The Company seeks consent of the members by way of Ordinary Resolution on the matters mentioned in the Postal Ballot Notice through remote e-

other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with (i) Rule 20 and Rule 22 of the rules as amended (ii) Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and (iii) MCA circulars, the company has provided only the remote e-voting facility to its Members, to enable them to cast their votes electronically instead of submitting the Postal Ballot form. The company has engaged the services of NSDL for providing remote e-voting facilities to the Members, enabling them

participants. The members holding shares in physical form are requested to register their email addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card, Aadhaar Card or any other Govt. document in support of the address poof of the member as registered with the Company for receiving the Postal Ballot Notice by email to Company at Investor.grm@gmail.com. Members holding shares in demat form can update their email address with the Depository Participants. The notice of the Postal Ballot shall contain all the instructions regarding the manner in which the M/s Devesh Arora and Associates, Company Secretaries, has been appointed

displayed on the Company's website www.grmrice.com and on the website

By order of the Board FOR GRM OVERSEAS LIMITED

E-AUCTION SALENOTICE FOR ASSETS OF

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

		(1111)	.s. Lacs	(In Rs. Lacs)	(In Rs. lacs)
Α	1. Land at Greater Noida Unit	1.	1490.83		
	2. Plant & Machinery	2.	493.59		
	3. Securities & Financial Assets	3.	39.27		
	4. Scrap of building at Greater Noida Unit	4.	10.86	203.45	10.00
		Total:	2034.55		
В	Land at Greater Noida Unit		1490.83	149.09	10.00
С	Plant & Machinery		493.59	50.44	10.00
D	Securities & Financial Assets		39.27	3.93	1.00
Е	Scrap of Building at Greater Noida Unit		10.86	1.08	0.50
	51				V

Last Date for submission of bids: June 23, 2021

Contact No.:8447079462(Ms. Mahima Tulsian)

provider "iQuippo Services Ltd."

IN LIQUIDATION" or give a Bank Guarantee for the EMD Amount as per Format A o

document. These documents should reach the office of the liquidator or by E-mail, at the 8. The Name of the Eligible Bidders will be determined by the Liquidator to participate in e auction on the portal (www.iquippo.com). The e-auction service provider (iQuippo

9. In case, a bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the e-auction, the Liquidator.

balance amount (Successful Bid Amount – EMD Amount) within 30 days on issuance of the LOI by the Liquidator. Default in deposit of the balance amount by the successful bidder within the time limit as mentioned in the LOI would entail forfeiture of the entire

adjourn/postpone/cancel the e-Auction or withdraw any property or portion thereof from the auction proceeding at any stage without assigning any reason thereof. 13. After payment of the entire sale consideration, the sale certificate/agreement will be issued in the name of the successful bidder only and will not be issued in any other name. 14. The sale shall be subject to provisions of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and

established and maintained by the Company acting through the Liquidator in order to conduct a due diligence of the business and operations of the Company. The interested bidder(s) shall be provided access to the information in the Data Room until the E-Auction Date. The access to, and usage of the information in the Data Room by the interested bidder(s) shall be in accordance with the rules as may be set forth by the Liquidator from

> Place: New Delhi Email ID: nstpl@ascgroup.in Date: 31" May 2021

NOTE: - 1. Vendors may visit the IREPS website i.e. www.ireps.gov.in for details 2. No Manual offer will be entertained.

Flat No. 57, South By: Open, East By: Open, West By: Staircase ("Property"). (a) Re.: Loan Against Property Account No. 300035837570019 for an amount of Rs.

That you, the Addressee have failed to maintain financial discipline in the loan account and as

publication of this notice, failing which, the Bank shall be entitled to exercise all or any of the following rights:

Bank, so much of the money as is sufficient to pay the secured debt.

Please note that this is the final notice. Needless to say that the Bank shall be within its right to

URJA GLOBAL LIMITED

S.			Quarter ended			(Rs. In Lakhs) Financial Year ended		
No.	PARTICULARS	31.03.2021 Audited	31.12.2020 Unaudited	31.03.2020 Audited	31.03.2021 Audited	31.03.2020 Audited		
1	Total income from operations (net)	4,377.19	3,445.84	2,788.12	13,128.07	14,636.32		
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary Items)	53.57	60.21	85.28	214.65	224.47		
3	Net Profit for the period before tax, (after Exceptional and Extraordinary items)	53,57	60.21	85.28	214.65	224.47		
4	Net Profit for the period after tax, (after Exceptional and Extraordinary items)	53.57	60.21	85.28	171.19	161.01		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Proifit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)	53.57	60.21	85.28	171.19	161.01		
6	Equity Share Capital	5,197.06	5,072.06	5,072.06	5,197.06	5,072.06		
7	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)				8,236.71	7,565.34		
8	Earnings per share (of Re. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) (1) Reisc	0.010	0.012	0.017	0.033	0.032		

	(before Tax, Exceptional and Extraordinary Items)	000000	5250,000	104051011	12/05/06/05	7 - 1903 - 120
3	Net Profit for the period before tax, (after Exceptional and Extraordinary items)	98.56	50.69	39.27	217.77	175.77
4	Net Profit for the period after tax, (after Exceptional and Extraordinary items)	98.56	50.69	39.27	173.63	112.05
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Proifit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)	98.56	50.69	39.27	173.70	112.13
6	Equity Share Capital	5,197.06	5,072.06	5,072.06	5,197.06	5,072.06
7	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)			•	12,016.32	11,342.05
8	Earnings per share (of Re. 1/- each)					

0.0190

0.0190

4 The Company has considered the possible effects that may result from the pandemic relating to COVID-19. The Company has performed sensitivity analysis on the assumptions used and based on current indicators of future economic conditions. In developing the assumptions

6 Previous period's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary to correspond with the current period's classification. For Urja Global Limited

New Delhi

financialexp.epap.in

Ē,

dvertisement S 9 6

Booking N

4

as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and

simultaneously forward the results to the Stock Exchanges where the shares Any query or grievance connected with the e-voting can be addressed to the

पेट्रोल-डीजल के दाम नई ऊंचाई पर

नई दिल्ली, 1 जून (भाषा)।

वाहन ईंधन कीमतों में एक महीने में 17वीं बार बढ़ोतरी के बाद देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मंगलवार को नई ऊंचाई पर जा पहुंचीं।

सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मुल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल की कीमत में 26 पैसे और डीजल में 23 पैसे लीटर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में पेट्रोल 94.49 रुपए लीटर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जबिक डीजल की कीमत 85.38 रुपए लीटर है।

मुल्यवर्धित कर (वैट) और माल ढुलाई शुल्क जैसे स्थानीय करों की वजह से ईंधन की कीमतें एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती हैं। राजस्थान देश

में पेट्रोल पर सबसे अधिक वैट लगाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान आता है। पेट्रोल की कीमत पहले ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में सौ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी थी। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में कीमतें देश में सबसे ज्यादा हैं। वहां पेट्रोल 105.52 रुपए लीटर और डीजल 98.32 रुपए लीटर है। शनिवार को मुंबई में भी पेट्रोल ने इस मनोवैज्ञानिक सीमा को लांघ डाला। उसके बाद से मंगलवार को दूसरी बार कीमतों में वृद्धि हुई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब 100.72 रुपए और डीजल 92.69 रुपए लीटर है। यह मई के बाद से कीमतों में 17वीं वृद्धि है। इस तरह अब तक पेट्रोल की कीमत 4.09 रुपए और डीजल की कीमत 4.65 रुपए लीटर बढी है।

वाहनों की बिक्री मई में घटी

नई दिल्ली, 1 जून (भाषा)।

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सजकी इंडिया समेत सभी वाहन कंपनियों के वाहनों की बिक्री मई में घटी है। मारुति के वाहनों की बिक्री अप्रैल की तुलना में मई में 71 फीसद तक घटी है। एकमात्र बजाज आटो की बिक्री में वृद्धि दर्ज की गई है।

मारुति के वाहनों की बिक्री अप्रैल की तुलना में मई में 71 फीसद घटकर 46,555 इकाई रह गई। अप्रैल में कंपनी ने 1,59,691 वाहन बेचे थे। कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ने और पूर्णबंदी के कारण विभिन्न राज्यों में वाहनों की आपूर्ति प्रभावित होने का असर कंपनी की बिक्री पर पड़ा है। कंपनी ने कहा कि मई में डीलरों को उसकी आपूर्ति 75 फीसद घटकर 35,293 इकाई रह गई, जो इससे पिछले महीने 1,42,454 इकाई रही थी।

टाटा मोटर्स की घरेलु बिक्री मई में 38 फीसद घटकर 24,552 इकाई रह गई। अप्रैल में कंपनी ने 39,530 वाहन बेचे थे। कंपनी ने पिछले साल मई में 4,418 वाहनों की बिक्री की थी। कंपनी ने कहा कि घरेलु बाजार में उसकी यात्री वाहनों की बिक्री मई में 15,181 इकाई रही, जो इस साल अप्रैल की 25,095 इकाई की बिक्री से 40 फीसद कम है। घरेलु बाजार में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 9,371 इकाई की हुई, जो अप्रैल में 14,435 इकाई से 35 फीसद कम है।

घटकर 17,447 इकाई रही। कंपनी ने बताया कि घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री मई में 56

फीसद घटकर 8,004 इकाई रह गई, जो अप्रैल 2021 में 18,285 इकाई रही थी। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री भी 53 फीसद घटकर 7,508 इकाई रही, जो अप्रैल में 16,147 इकाई थी। कंपनी का निर्यात भी 1,935 इकाई रहा, जो अप्रैल में 2,005 इकाई था।

हुंदै की बिक्री मई में 48 फीसद घटकर 30,703 इकाई रही जो अप्रैल 2021 में 59,203 इकाई थी। कंपनी के मुताबिक मई में घरेलू बिक्री 49 फीसद की गिरावट के साथ 25,001 इकाई रही, जो अप्रैल में 49,002 इकाई थी। कंपनी का पिछले महीने निर्यात 5,702 इकाई रहा, जो अप्रैल के 10,201 इकाई से 44 फीसद कम है।

टीवीएस मोटर की मई में बिक्री 30 फीसद घटी। कंपनी ने अप्रैल में 2,38,983 इकाइयां बेची थीं। मई में यह संख्या कम होकर 1,66,889 हो गई। कंपनी ने मई में 1,25,188 मोटरसाइकिलें बेचीं जो अप्रैल में 1,33,227 थीं। इसी तरह कंपनी ने मई 2021 में 19,627 स्कूटर बेचे, अप्रैल में यह संख्या 65,213 थी। कंपनी की तिपहिया बिक्री 12.473 इकाई रही. जो अप्रैल में 12,790 इकाई थी।

बजाज ऑटो की बिक्री मई में 114 फीसद बढी। कंपनी ने कहा कि उसके कुल वाहनों की बिक्री पिछले साल के समान महीने की तुलना में 114 फीसद बढ़कर 2,71,862 इकाई हो गई। कंपनी ने पिछले साल मई में 1,27,128 वाहन बेचे थे। एमजी महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री मई में 52 फीसद मोटर इंडिया के वाहनों की बिक्री भी मई बढ़ी। उसने 1,016 वाहन बेचे, जबिक पिछले साल के समान महीने में यह आंकड़ा 710 था।

शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद

नई दिल्ली, 1 जून (भाषा)।

देश के शेयर बाजारों में मंगलवार को कारोबार सीमित दायरे में रहा। सूचकांक और निफ्टी दोनों में मामली गिरावट रही।

विश्लेषकों के मुताबिक वैश्विक बाजारों में के साथ 15,574.85 अंक पर बंद हुआ।

मजबूत रुख के बावजूद निवेशकों की मुनाफावसूली से बाजार में गिरावट रही। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट और वृहद आर्थिक आंकड़े संतोषजनक नहीं रहने से निवेशक बाजार से दूर रहे।

रेलटेल (भारत सरकार का एक उपक्रम)

दिनांक : 21.05.2021 रेलटेल / उत्तरी क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित खंड में 3 वर्ष की अवधि के लिए ओएफसी अनुरक्षण टीम की नियुक्ति हेतु योग्य बोलीदाताओं से (1)ग्वालियर–बिडलानगर–भिंड–उदीमोर–इटावा उदीमोर–बाह–भंडई के लिए रेलटेल

/ निविदा / ओटी / एनआर / ओएंडएम / निविदा सूचना और निविदा दस्तावेज www.railtelindia.com पर उपलब्ध हैं।

परिशिष्ट / शुद्धिपत्र केवल रेलटेल वेबसाइट में ही John Oakey And Mohan Limited

CIN: L15549DL1962PLC003726, Read. Office: Office No. 4, FF, CSC Pocket E Market Mayur Vihar, Phase-2, Delhi - 110091 Email: oakeymohan@gmail.com contact@oakeymohan.com, Website: www.oakeymohan.in, Tel.: 0120-2657298; Fax: 120-2659155

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Regulation 29 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday the 28th June 2021 at 2pm at Mohan Nagar Ghaziabad UP inter-alia to consider. approve and take on record the audited Financial

The Notice is also available on the website of the company at www.oakeymohan.in and coy of the notice has been sent to Metropolitan Stock Exchange of India Ltd at listing compliance@msei.in

Results for the guarter and year ended 31st March

For John Oakey And Mohan Limited (Surendra Kumar Seth) Place: Delhi Company Secretary Dated 01st June, 2021

तीस शेयरों पर आधारित सूचकांक में मंगलवार को पिछले चार कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर विराम लगा। यह कारोबार की समाप्ति पर 2.56 अंक की मामुली गिरावट के साथ 51,934.88 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 7.95 अंक की हल्की गिरावट

डॉएच्च बेंक एजी

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (यहां वे बाद ''अधिनियम'' वर्णित) की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सुचना

ऋणधारकों: 1. श्री उज्वल वर्मा, 2. श्रीमती गीता वर्मा, आवासीय सम्पत्तिः फ्लैट नं. 58, प्रथम तल, गौतम अपार्टमेन्ट, गौतम नगर, नई दिल्ली-110049, क्षेत्रफल 1050 वर्ग फीट लगभग (सम्पत्ति) जिसकी चौहद्दी 🛮 इस प्रकार हैः उत्तरः फ्लैट नं. 57, दक्षिणः खुला, पूर्वः खुला, पश्चिमः सीढ़ियां (''सम्पत्ति'')

कि) संदर्भः सम्पत्ति के लिये ऋण, खात नं. 300035837570019, रु. 1,27,50,000/- (रुपये एक करोड़ सत्ताईस लाख पचास हजार मात्र) की राशि के लिये।

जैसा कि ड्यूट्श्चे बैंक एजी, जिसके व्यवसाय का एक स्थान भू तल एवं 14वां तल, हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस, 18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली- 110001 में है (यहां के बाद ''बैंक'' वर्णित) ने आप एड्रेसी को ऋण सुविधा प्रदान की थी, उक्त ऋण सुविधा अन्य बातों के अलावे आवासीय सम्पत्तिः फ्लैट नं 58, प्रथम तल, गौतम अपार्टमेन्ट, गौतम नगर, नई दिल्ली-110049, क्षेत्रफल 1050 वर्ग फीट लगभग (यह के बाद ''प्रतिभृति परिसम्पत्ति'' वर्णित) में अधिकार, टाइटल एवं हित पर गिरवी द्वारा प्रतिभृत है।

कि, आप एड्रेसी ऋण खाता के वित्तीय अनुशासन को कायम रखने में विफल रहे हैं तथा इस प्रका आउटस्टैंडिंग मूल धन, एरिअर्स (उपचियत विलम्बित शुल्कों सहित) के द्वारा रु. 1,40,47,135.37 (रुपरे एक करोड़ चालिस लाख सैंतालिस हजार एक सौ पैंतिस एवं पैसे सैंतीस मात्र) तथा सम्पूर्ण देयताओं की प्राप्ति की तिथि तक उस पर ब्याज के रूप में बैंक की बकाया राशि बैंकिंग व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया में प्रबंधित लेखा पुस्तकों के अनुसार आप पर बकाया है।

उक्त आउटस्टैंडिंग देयताओं के अतिरिक्त सम्पूर्ण बकाया राशि के भुगतान तक आप भविष्य के ब्याज तथा दंड ब्याज का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं। आपकी ओर से की गई लगातार चूक के कारण इस ऋण खाता को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बैंक ने गैर प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप

उपरोक्त चूक को देखते हुए एतद्द्वारा बैंक आप एड्रेसी को निर्देश देता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतों तथा चार्जेज सहित सम्पूर्ण बकाया देयताओँ का भुगतान कर बैंक के प्रति अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा बैंक अधोलिखित सभी या किसी भी अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत होगा।

. सुरक्षित संपत्ति की उगाही करने के लिए लीज, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार सिहत उधारकर्ता की सुरक्षित संपत्तियों का अधिकार लेना;

2. उधारकर्ता की सुरक्षित संपत्तियों का प्रबंधन अधिग्रहण, जिसमें लीज, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से स्थानांतरित करने का अधिकार शामिल है और सुरक्षित संपत्ति का अधिग्रहण करना; सुरक्षित लेनदार द्वारा लिया गया सुरक्षित संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए किसी भी व्यक्ति (जो प्रबंधक

के रूप में जाना जाता है) को नियुक्त करना; . उधारकर्ता से किसी भी सुरक्षित संपत्ति को हासिल करने वाले किसी भी व्यक्ति को लिखित में नोटिस द्वार किसी भी समय आवश्यकता होती है और जिसके द्वारा कोई भी उधारकर्ता के कारण कोई भी धन होत

है, सुरक्षित लेनदार या भुगतान करने के लिए, जितना पैसा पर्याप्त होता है सुरक्षित ऋण का भुगतान करने कृपया यह जान लें कि एतद्द्वारा आप बैंक की विशिष्ट लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी रूप

में प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का स्वत्व त्याग करने (अंतरण, बिक्री पट्टा या अन्य रूप में, सहित) अथवा थर्ड पार्टी का निर्माण करने अथवा व्यवसाय करने के अधिकार से वंचित है। कृपया यह जान लें कि इसका किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर एक वर्ष की कैद या जुर्माने अथवा दोनों हो सकता है। कपया ध्यान रहे कि यह अंतिम सचना है। यह कहना जरूरी नहीं है कि बैंक परी तरह से आपकी जोखिम

उत्तरदायित्व एवं लागतों पर आप एड्रेसी के विरुद्ध उपरोक्त किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत है।

डॉएच्च बैंक एजी (दानिश खान), दिनांक : 02.06.2021 प्राधिकृत अधिकारी स्थान : नई दिल्ली

A Canara Bank

शाखाः एसजीएफ 4 एवं 5,

माँग सुचना पालम ट्राएंगल माल, पालम वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुननिर्माण

तथा प्रतिभति हित प्रवर्त्तन अधिनियम. 2002 के अंतर्गत विहार, गुरुग्राम-122017 आप नीचे वर्णित ऋणधारकों ने अनसची में वर्णित सम्पत्ति को गिरवी रख कर ऋण प्राप्त किया है तथा आप नीचे वर्णित ऋण अनबंध के लिये के लिये ऋणधारक सह-ऋणधारक/ गारन्टर बने हैं। आपके द्वारा की गई चुक के उपरांत वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में सरफैसी अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत आपकी ऋण खाता को गैर प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है।

केनरा बैंक के प्राधिकत अधिकारी ने आपके द्वारा नीचे दिये गये पते पर सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (13) के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सचना जारी किया। यह सुचना पंजीकृत डाक से भेजी गई जो आपको प्राप्त हुए बिना वापस लौट आई। इस सुचना का विषय वस्तु यह है कि आपने आपकी स्वीकृत विभिन्न ऋणों के भगतान में चुक की है। अतः वर्तमान प्रकाशन सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (2) के प्रावधान तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के प्रावधानों के अनसार सचना के रूप में जारी की जा रही है।

2 (1) 11 21 11 11 11 313 111 12 11		00	W.
ऋणधारक/ मार्टगैजर/ गारंटर का नाम एवं	चल⁄ अचल सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना के अनुसार	
पता		बकाया राशि	मांग सूचना तिथि
ऋणधारकः मै. बालाजी टूर्स (प्रॉप. रणवीर सिंह,	चलः 1 नग टोएटा एटिओस टैक्सी, पंजी. सं. HR55X1927,	रु. 35,85,104/- (रुपए पैंतीस	21.5.2021
	01 नग टोएटा लिवा टैक्सी, पंजीकरण सं. HR55X8022, 01		
मकान सं. 70, स्वरूप गार्डन, राजेन्द्रा पार्क,	नग मारूति ब्रीजा, पंजी. सं. HR26DE5912, टाइटल धारक	मात्र) तथा आगे का ब्याज,	
गुड़गांव, हरि-122001	का नाम (सभी के लिये): रणवीर सिंह	अनुषांगिक खर्चे एवं लागतों।	एनपीए की तिथि
	अचलः मकान सं. 70, खसरा नं. 138, स्वरूप गार्डन, राजेन्द्रा		21.9.2021
मकान सं. 70, स्वरूप गार्डन, राजेन्द्रा पार्क,	पार्क, गुड़गांव, हरियाणा- 122001 में स्थित सम्पत्ति		
गुड़गांव, हरि-122001	टाइटल धारक का नामः श्रीमती स्नेहलता, पत्नी श्री रणवीर सिंह		
2070 %0	2 200 2 0 22 0 2	2 2 2	

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर ब्याज के साथ उपरोक्त राशि का केनरा बैंक को भगतान करें, अन्यथा केनरा बैंक ऋणधारकों, मार्टगैजरों तथा गारन्टरों के प्रतिभत परिसम्पत्तियों का कब्जा लेने सहित सभी या किसी एक या उससे अधिक प्रतिभत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करेगा। उक्त अधिनियम के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक को उपलब्ध शक्तियों में शामिल हैं: 1) प्रतिभृत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिए पट्टा, एसाइन्मेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित ऋणधारकों/ गारन्टरों की प्रतिभत परिसम्पत्तियों का कब्जा करना, 2) प्रतिभृत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिए पट्टा एसाइन्मेंट या बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित प्रतिभृत परिसम्पत्तियों के प्रबंधन का अधिग्रहण तथा केनरा बैंक द्वारा प्रतिभत परिसम्पत्तियों का किसी भी रूप में अंतरण प्रतिभत अंतरित परिसम्पत्तियों के संदर्भ में ऐसा माना जाएगा कि उसका अंतरण आपके द्वारा ही किया गया हो। उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के प्रावधानों के अनुसार आप ऊपर वर्णित किसी भी प्रतिभृत परिसम्पत्तियों तथा साथ ही बैंक के पास हाइपोथेकेटेड/ गिरवी सम्पत्तियों का केनरा बैंक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना बिक्री, पट्टा या अन्य रूप में (अपने व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया को छोड़कर) अंतरित करने से एतदृद्वारा

''आपका ध्यान सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अंतर्गत केवल सार्वजनिक नीलामी द्वारा, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रित कर अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभृत परिसम्पत्ति(यों) की बिक्री की सचना के प्रकाशन की तिथि तक ही बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जों एवं खर्चे के साथ सम्पर्ण बकाया राशि का भगतान कर सकते हैं। कपया यह भी ध्यान रहे कि यदि सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेशन, निवदा आमंत्रित कर अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभृत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए सुचना के प्रकाशन से पूर्व आप बैंक द्वारा वहन की गई लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो आप प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) को विमोचित करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह सचना विधि के लाग होने वाले किसी अन्य प्रावधानों के अंतर्गत वह जो भी उपयक्त समझे ऐसी उपयक्त कार्रवाई अथवा काननी कार्रवाई शरू करने के बैंक के

अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह-रहित है।

तिथि: 02.06.2021 स्थानः गुरुग्राम

पाधिकत अधिकारी केनरा बैंक

निविदा सं. : रेलटेल / निविदा / ओटी / पृक्षे. / एचक्यू / 2020-21/1294 दिनांक: 30.05.2021 रेलटेल द्वारा "भारतीय रेलवे के लिए निर्भया फंड से रेलटेल के पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर आईपी आधारित विडियो निगरानी प्रणाली (वीएसएस) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, मौजूदा वीएसएस इनका के साथ इंटीग्रेशन, संचालन एवं अनुरक्षण" हेत् ई-निविदाएं आमंत्रित की

निविदा सूचना और निविदा दस्तावेज www.railtelindia.com आर्री https://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। परिशिष्ट / शुद्धिपत्र केवल रेलटेल वेबसाइट पर ही अपलोड किये जाएंगे

उत्तर रेलवे शुद्धि-पत्र-IV

सं.: CIID/SLR/Tender/2020 (Part-V)

सन्दर्भः (i) निविदा छपने की तिथि : 06.04.2021 एवं खुलने की तिथि : 27.04.2021. (ii) शुद्धि-पत्र छपने की तिथि : 27.04.2021. (iii) शुद्धि-पत्र-॥ छपने की तिथि : 11.05.2021.

(iv) शुद्धि-पत्र-॥ छपने की तिथि : 21.05.2021.

आप सभी को यह सुचित किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण, विभिन्न अंग्रेजी और हिंदी अखबारों में प्रकाशित विशेष ट्रेनों में SLR पार्सल स्पेस को पटटे पर देने के लिए निविदा, जो कि IREPS पोर्टल www.ireps.gov.in के माध्यम से दिनांक 02.06.2021 को खोली जानी थी उसे स्थिगत कर दिया गया है और अब इसे दिनांक 15.06.2021 को 15:00 बजे खोला जाएगा। इसके अलावा, कृपया ऑनलाइन बोली जमा करने से पहले निविदा दस्तावेज में दिए गए "General Instructions, Instructions to Tenderer and Terms and Conditions* (संशोधित शर्तौ सहित) को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका पालन सुनिश्चित करें।

अन्य जानकारी में कोई बदलाव नहीं है।

1189/2021 ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda पुराना बस स्टैण्ड अलीगढ़ शाखा, 13/6 जी टी रोड, अलीगढ़— 202001 फोन नं0 8477000352, E-mail-vjalig@bankofbaroda.co.in

अनडिलिवर्ड डिमांड नोटिस

धारा 13 (2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुर्ननिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नोटिस **बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, पुराना बस स्टैण्ड अलीगढ़ शाखा अलीगढ़** द्वारा नीचे उल्लेखित सम्पत्ति को साम्यिक बंधक रखते हुये ऋण प्रदान किया गया। उधारकर्ताओं / गारंटरों के नियम एवं शर्तों के अनुसार ऋण की अदायगी करने में असफल रहने के फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण खाता एनपीए की श्रेणी में वर्गीकृत हो गया। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बैंक देयों की वसूली हेतु सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नीचे उल्लेखित तिथियों को माँग नोटिस जारी किया गया एवं रजिस्टर्ड पोस्ट एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से उधारकर्ताओं / गारंटरों को भेजा गया। दिये गये पते से डाक वापस आने के कारण उक्त मौंग नोटिस प्रकाशित किया जा रहा है। उधारकर्ता / गारंटर को सुचित किया जाता है कि इस माँग नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर बैंक के समस्त देयों (ब्याज, वसुली व्यय एवं प्रभार आदि) को भगतान करें अन्यथा समस्त देयों की वसूली हेत् बँक सरफेयसी अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति की कब्जा एवं नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा। **'उधारकर्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभृत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम**

_	धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधी की ओर आ	कृष्ट किया जाता है।"	डिमांड नोटिस	
क्र. सं.	ऋणी / गारन्टर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	की तारीख	नोटिस के अनुसार देय राशि
1.	ऋणीः मैसर्स एल0एस0एस0 ट्रेडिंग कम्पनी, प्रोपराइटर श्री सुनील कुमार पुत्र लक्ष्मण सिंह, खेत नं0 64 का भाग, ग्राम-अशरफपुर जलाल, परगना एवं तहसील- कोईल, जिला-अलीगढ - 202001, गारन्टर/बंधककर्ताः- श्रीमती शिला देवी पत्नी लक्ष्मण सिंह, खेत नं0 64 का भाग, ग्राम- अशरफपुर जलाल, परगना एवं तहसील कोईल, जिला- अलीगढ़- 202001	निर्मित गो-डाउन, खेत नं0 64 का भाग, स्थित ग्राम- अशरफपुर जलाल, परगना एवं तहसील-कोईल, जिला-अलीगढ़, माप क्षेत्रफल 418.05 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती शिला देवी पत्नी लक्ष्मण सिंह सीमाएँ: पूर्वः	एनपीए की तिथि 31.03.2021	स्त्र 3749902.26 दिनांक 31.03.2021 तब + प्रभावी व्याज दिनांक 31.03.2021 एवं अन्य विविध खर्चे एव स्त्र 164177/- दिनांक 31.03.2021 तक + प्रभावी व्याज दिनांक 30.03.2021 एवं अन्य विविध खर्चे
2.	ऋणी/बंधककर्ताः श्रीमती बबली देवी पत्नी मनोज कुमार, खेता नं0 143/1 का भाग सरसोल, आउटर चुंगी, मोहन नगर कॉलोनी निकट गोल्डन ब्राइट स्कूल, जी टी रोड, जिला-अलीगढ़-202001 सह-ऋणीः श्री मनोज कुमार पुत्र शिव चरण, खेत नं0 143/1 का भाग सरसोल, आउटर चुंगी, मोहन नगर कॉलोनी निकट गोल्डन ब्राइट स्कूल, जी टी रोड, जिला- अलीगढ़- 202001 फीट, उत्तरः विकेता का लॉट, साइड माप 45, दिश	आवासीय मकान खेत नं0 143/1 का भाग, सरसोल, आउटर चुंकी, मोहन नगर कॉलोनी, निकट गोल्डन ब्राइट स्कूल, जी टी रोड, परगना एवं तहसील- कोईल, जिला- अलीगढ़, माप क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती बबली देवी पत्नी मनोज कुमार, सीमाएँ:- पूर्वः विक्रेता का प्लॉट, साइड माप 20 फीट, पश्चिम: 20 फीट चौडा रास्ता, साइड माप 20	एनपीए की तिथि 31.03.2021	रू0 2692154.17 दिनांक 31.03.2021 तय + प्रभावी व्याज दिनांक 30.03.2021 एवं अन्य विविध खर्चे

आपका सलाह दी जाती है कि (1) आपको सबोधित तथा कोरियर/डाक प्राधिकारी द्वारा वापिस किया गया मूल नोटिस/आवरण को अधोहस्ताक्षरी से अधिक तथा पूर्ण जानकारी के लिए एकत्रित करें और (2) सरफेंसी अधिनियम के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही से बचने के लिए ब्याज, खर्चों आदि सहित शेष

बकाया धनराशि का उल्लेखित नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर भगतान करें। दिनांक-01.06.2021 प्राधिकत अधिकारी

दूरभाष : 011-25594284/25511667, ई-मेल : iob0544@iob.in

्रप्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) के तहत

1. जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी ने सरफैसी अधिनियम के तहत इंडियन ओवरसीज बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यहां नीचे सुचीबद्ध कर्जदारों/बंधककर्ताओं/जमानतियों (इसके पश्चात ''कथित कर्जदार'' संदर्भित) को निम्नलिखित विवरणों के अनुसार इस सुचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर सुचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भगतान करने को कहते हुए कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सचना जारी की थी।

2. कथित सुचनाएं पोस्टल प्राधिकरणों द्वारा अनडिलीवर्ड वापस कर दी गयीं/कर्जदारों/बंधककर्ताओं/जमानतियों द्वारा विधिवत ग्रहण नहीं की गयीं।* अतः बैंक पर्याप्त चेतावनी के साथ मांग सूचना के इस प्रकाशन को जारी कर रहा है। अतः अधोहस्ताक्षरी ने इन सूचनाओं को कथित अधिनियम के अनुसार कथित कर्जदारों/बंधककर्ताओं/जमानतियों के अन्तिम ज्ञात पते के परिसर में चिपकाने का कार्य किया है। कथित सुचनाओं की प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं और कथित कर्जदारों/बंधककर्ताओं/जमानितयों द्वारा, यदि वे चाहें, कथित प्रतियां अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्यदिवस में सामान्य कार्यालयी घंटों के दौरान प्राप्त की जा सकती हैं।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, एतद्वारा कथित कर्जदारों/बंधककर्ताओं/जमानितयों को एक बार पुनः सूचना दी जाती है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर इंडियन ओवरसीज बैंक को नीचे दिये गये ऋण तथा अन्य दस्तावेज के तहत सुचित/देय राशियों भुगतान कर दें। ऋण के बकाया पुनर्भुगतान हेतु प्रतिभृति के रूप में निम्नलिखित आस्तियां सम्बन्धित पक्षों द्वारा निम्नवत बंधक की गयीं हैं :

क्र. सं.	पता सहित कर्जदारों⁄बंधककर्ताओं∕जमानतियों का नाम	कुल बकाया *	प्रतिभूत आस्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि
1	श्री रोहित कुमार गुप्ता, श्रीमती गुंजन गुप्ता जीएच-2/653, प्रथम तल, सेक्टर-28, रोहिणी, साहिबाबाद दौलतपुर, नई दिल्ली-110042 तथा श्री रोहित कुमार गुप्ता, श्रीमती गुंजन गुप्ता, डीडीए फ्लैट नं. 22, भूतल, पॉकेट जीएच-1, सेक्टर 28, रोहिणी, दिल्ली-110042	26,26,708.53	डीडीए निर्मित सम्पत्ति फ्लैट सं. 22, भूतल, संस्कृति अपार्टमेंट्स, पॉकेट जीएच-1, सेक्टर 28, एलआईजी श्रेणी, दिल्ली-110042	

* उपर्युक्त तिथि से भुगतान की तिथि तक यथासहमत अनुबन्ध दर/रेस्ट्रस सहित देय भावी ब्याज

4. यदि कथित कर्जदार/बंधककर्ता/जमानती उपर्युक्त के अनुसार इंडियन ओवरसीज बैंक को भुगतान करने में असफल रहते हैं, तो इंडियन ओवरसीज बैंक कथित कर्जदारों/बंधककर्ताओं/जमानतियों के जोखिम, लागतों तथा परिणामों पर सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) एवं नियमों के तहत उपर्यक्त प्रतिभत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा।

5. प्रतिभृत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों/बंधककर्ताओं/जमानतियों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

6. कथित कर्जदारों/बंधककर्ताओं/जमानतियों को सरफैसी अधिनियम के तहत इंडियन ओवरसीज बैंक की पूर्व लिखित सहमित के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा रीति से प्रतिभृत आस्तियों को हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है। कोई व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन या अतिक्रमण करता है तो वह अधिनियम की धारा 29 के तहत प्रावधानित जेल तथा/अथवा जुर्माने का उत्तरदायी होगा।

स्थान : नई दिल्ली अधिकृत प्राधिकारी, तिथि : 01.06.2021 इंडियन ओवरसीज बैंक

2. तरल

बाह्य श्रोतों का उपयोग किया है।

स्थानः दिल्ली

तिथि: 31 मई. 2021

ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड CIN: L67120DL1992PLC048983

0.012

0.012

0.010

0.017

0.017

0.033

0.033

0.032

0.032

से पूर्व जमा करने होंगे।

के असीमित विस्तार सहित)

पंजी. कार्यालय: 487/63, 1ला तल, नेशनल मार्केट, पटपड़गंज, नई दिल्ली-110087 2021 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के अंकेक्षित स्टैंडएलॉन विनीय परिणामों के विवरण

					(रु. लाखों मे
क्रम	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वित्त वर्ष	
सं.		31.3.2021 (अंकेक्षित)	31.12.2020 (अनंकेक्षित)	31.3.2020 (अंकेक्षित)	31.3.2021 (अंकेक्षित)	31.3.2020 (अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	4377.19	3445.84	2788.12	13128.07	14636.32
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	53.57	60.21	85.28	214.65	224.47
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	53.57	60.21	85.28	214.65	224.47
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	53.57	60.21	85.28	171.19	161.01
5.	अविध हेतु कुल व्यापक आय (अविध हेतु (कर के बाद) लाभ एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल	53.57	60.21	85.28	171.19	161.01
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	5072.06	5072.06	5072.06	5072.06	5072.06
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	-	-	0 -	8235.71	7565.34
8.	आय प्रति शेयर (रु. 1/- प्रति का) (जारी प्रचालनों के लिए)					

क्रम	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वित्त वर्ष	
सं.		31.3.2021 (अंकेक्षित)	31.12.2020 (अनंकेक्षित)	31.3.2020 (अंकेक्षित)	31.3.2021 (अंकेक्षित)	31.3.2020 (अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	5532.53	3,941.57	3097.85	15181.95	16,536.58
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	98.56	50.69	39.27	217.77	175.77
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	98.56	50.69	39.27	217.77	175.77
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	98.56	50.69	39.27	173.63	112.05
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल	98.56	50.69	39.27	173.70	112.13
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	5072.06	5072.06	5072.06	5072.06	5072.06
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	-	-	-	12016.32	11342.05
8.	आय प्रति शेयर (रु. 1/- प्रति का) (जारी प्रचालनों के लिए) 1. मुल	0.0190	0.0100	0.0077	0.0334	0.0221
	2. तरल	0.0190	0.0100	0.0077	0.0334	0.0221

1. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा एवं सिफारिश की गई तथा 13 मई. 2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित

2. कम्पनी केवल खंड में प्रचालन करती है, अतः खंड वार विवरणों से संबंधित उपबंध कम्पनी पर लाग नहीं है।

3. उपरोक्त वित्तीय अंकेक्षित परिणामों को यथा संशोधित तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में विनिर्दिष्ट रूप में कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के लागू होने वाले पहचान तथा मापन के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। 4. कम्पनी ने कोविड-19 महामारी से संभावित प्रभावों का विचार किया है। कम्पनी ने भविष्य की आर्थिक स्थितियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर तथा प्रयुक्त परिकल्पनाओं का संवेदनशील विश्लेषण किया है। इस महामारी के कारण सार्वभौमिक आर्थिक स्थितियों में भविष्य की संभावित अनिश्चिताओं से संबंधित परिकल्पनाओं को विकसित करने में कम्पनी ने इन वित्तीय परिणामों की स्वीकृति की तिथि को कम्पनी के भविष्य के संभावित प्रदर्शनों पर प्रयुक्त आंतरिक तथा

5. ईपीएस की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में संशोधित तथा विनिर्दिष्ट रूप में कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली. 2015 में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसुचित रूप में इंड एएस 33 के अनुसार की गई है।

6. उसे चालू अवधि के वर्गीकरण/ उद्घाटन के अनुरूप बनाने के लिए जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि के आंकड़े, पुनर्वर्गीकृत/ पुनसर्मूहीकृत किये गये हैं। ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के लिये

धीरज कमार शिशोदिया निदेशक

DIN: 07847284

जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड

CIN:L74899DL1995PLC064007 पंजी. कार्यालय : 128, प्रथम तल, शिवा मार्केट, पीतमपुरा, उत्तरी दिल्ली – 110034 वेबसाईट : www.grmrice.com | ई.मेल : grmrice1@gmail.com फोन नं. - 011-47330330 | फैक्स : 011-(0180-2653673)

एतद्वारा कम्पनी के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि तथा कॉर्पोरेट 19 के खतरे के कारण नवीनतम सामान्य परिपत्र सं. 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 (एमसीए परिपत्र तथा उसके तहत निर्मित नियमों के साथ पठित समय-समय पर यथासंशोधित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन नियम, 2014 के नियम 22 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों यदि कोई हो, एवं अन्य प्रयोज्य कानुनों तथा विनियमों के अनुसार, कम्पनी पोस्टल बैलट सचना दिनांक 27 मई. 2021 (पोस्टल बैलट सचना) में निर्धारित विशेष प्रकार्य के परिप्रेक्ष्य में पोस्टल बैलट के माध्यम अपने सदस्यों का अनुमोदन ग्रहण करेगी।

एमसीए परिपत्रों के संदर्भ में तथा कोविड-19 महामारी के खतरे के कारण कम्पनी पोस्टल बैलट सुचन केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भेजेगी और सहमति अथवा असहमति का सम्पर्क भी केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से सम्पन्न होगा। कम्पनी ने पोस्टल बैलट सूचना केवल उन सदस्यों के पास भेजने का कार्य 1 जून, 2021 को पूरा कर लिय

है जिनके नाम एनएसडीएल तथा सीडीएसएल से प्राप्त के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं तथा जिनके ई-मेल पते (बुधवार), 28 मई, 2021 ('कट-ऑफ तिथि') तक कम्पनी वे कम्पनी केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलट सूचना में उल्लिखित मामलों पर सामान्य/विशेष

प्रस्तावों के माध्यम से सदस्यों की सहमित चाहती है। पोस्टल बैलट सूचना की एक प्रति कम्पनी की वेबसाइ www.grmrice.com तथा स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com जहां कम्पनी के शेयर सुचीबद्ध हैं, तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evot ing.nsdl.com पर उपलब्ध है। कृपया ध्यान दें कि (i) यथासंशोधित संशोधित नियमों के नियम 20 एवं नियम 22 (ii) सेबी (सूचीबद्धत दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 तथा (iii) एमसीए परिपत्रों के साथ पठित

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, 110 एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के अनुपालन में, कम्पनी न पोस्टल बैलट प्रपत्र के बजाय अपने मतदान इलेक्टॉनिक रूप से करने में सक्षम करने के लिए अपने सदस्यी को केवल रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है। कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से तथा सुरक्षित ढंग से अपन मतदान करने में समर्थ करने हेतु सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं ग्रहण की हैं। जिन सदस्यों के शेयर भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में हैं और जिनके ई-मेल पते पंजीकृत नहीं हैं, वे अपर ई-मेल आईडी कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट/अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ पंजीकृत

करा लें। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने ई-मेल पते सदस्य(यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, अपने नाम, पूर्ण पते, फोलियो नम्बर, कम्पनी के साथ धारित शेयरों की संख्या क स्कैन्ड प्रति तथा पते के प्रमाण के रूप में पैन कार्ड, आधार कार्ड या किसी अन्य सरकारी दस्तावेज, ज कम्पनी के साथ पंजीकृत है, की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति यथाशीघ्र कम्पनी के पार Investor.grm@gmail.com पर ई-मेल द्वारा भेज दें ताकि वे पोस्टल बैलट सूचना प्राप्त कर सकें जिन सदस्यों के शेयर डीमैट प्रारूप में हैं वे अपने ई-मेल पते अपने डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ अपडेत करा सकते हैं। पोस्टल बैलट सुचना में रिमोट ई-वोटिंग द्वारा सदस्यों को अपना मतदान करने की रीति संबंधित समस्त निर्देश दिये गये हैं।

मैसर्स देवेश अरोड़ा एण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से पोस्टल बैलट प्रक्रिय संचालित करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग 3 जून, 2021 को 9.00 बजे पूर्वा. रं प्रारम्भ होगी और 2 जुलाई, 2021 को 5.00 बजे अप. समाप्त होगी। 2 जुलाई, 2021 को 5.00 बजे अप के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

यदि कोई सदस्य 2 जुलाई, 2021 को 5.00 बजे अप. के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपन मतदान करता है तो रिमोट ई-वोटिंग को वैध मत नहीं माना जायेगा और यह माना जायेगा कि सदस्य क कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

पोस्टल बैलट के परिणाम शनिवार, 3 जुलाई, 2021 को या इससे पूर्व घोषित किये जायेंगे। संवीक्षक की रिपोर्ट सहित उपर्युक्त परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.grmrice.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर परिणामों की घोषणा के तुरन्त बाद प्रदर्शित किया जायेगा। कम्पनी तत्काल ही इन परिणामों को स्टॉव एक्सचेंजों के पास भी अग्रसारित करेगी जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

ई-वोटिंग से सम्बन्धित कोई पूछताछ या शिकायत के लिए एनएसडीएल से ई-मेल द्वार evoting@nsdl.co.in पर अथवा दूरभाष : 1800 224430 या 1800 1020990 पर सम्पर्क करें। सदस्य कम्पनी के पास Investor.grm@gmail.com पर भी लिख सकते हैं।

बोर्ड की आज्ञानुसार जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड के लिए अतुल गर्ग

(प्रबंध निदेशक

टेक्नोलॉर्जी पार्क लिमिटेड की आस्तियों हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचन सीआईएन : U72200DL1999PLC098726 (परिसमापनाधीन कम्पनी) परिसमापक : श्री आलोक कुमार अग्रवाल

पंजीकृत कार्यालय : सिंधिया विला, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली, दिल्ली-110023 ई-मेल आईडी : nstpl@ascgroup.in

ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता, 2016 के तहत आस्तियों की बिक्री परिसमापनाधीन कम्पनी के आइस्तयों की बिक्री ''जहाँ है जैसे है, जो है यही है, जो कुछ भी है वहीं है तथा उपचार रहित आधार'' पर की जा रही है।

ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 1 जुलाई, 2021 को 3.00 बजे अप. भा.मा.स. से 4.00 बजे अप. भा.मा.स. (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित)

ब्लॉक	आस्तियाँ	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि (रु.	वृद्धि राशि (रु	
		(रु. लाख में)	लाख में)	लाख में)	
क	1. ग्रेटर नोएडा यूनिट में भूमि	1. 1490.83			
	2. संयन्त्र एवं मशीनरी	2. 493.59			
	3. प्रतिभूतियाँ एवं वित्तीय आस्तियाँ	3. 39.27			
	4. ग्रेटर नोएडा यूनिट में भवन का स्क्रैप	4. 10.86			
		कुल : 2034.55	203.45	10.00	
ख	ग्रेटर नोएडा यूनिट में भूमि	1490.83	149.09	10.00	
ग	संयन्त्र एवं मशीनरी	493.59	50.44	10.00	
घ	प्रतिभूतियाँ एवं वित्तीय आस्तियाँ	39.27	3.93	1.00	
ङ	ग्रेटर नोएडा यनिट में भवन का स्क्रैप	10.86	1.08	0.50	

नोट : पुनः उपर्युक्त बिक्री ''इक्विपो सर्विसेज लिमिटेड'' की वेबसाइट पर अपलोड प्रक्रिया दस्तावेज उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अध्यधीन है। विवरण के लिए कृपया www.iquippo.com अथव www.nstpl.co देखें।

संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि : 23 जून, 2021 ई-नीलामी की तिथि : 1 जुलाई, 2021

तिथि : 01 जून, 2021

स्थान : नई दिल्ली

सम्पर्क नं. : 8447079462 (सुश्री महिमा तुलसियान)

एस्केलेशन : यदि उपर्युक्त फोन नम्बर पर पृछताछ का उत्तर नहीं मिलता है तो +91–9711191523 प ह्वाट्सएप मैसेज भेजा जा सकता है। ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं

1. ई-नीलामी अनुमोदित सेवा प्रदाता ''इक्विपो सर्विसेज लिमिटेड'' के माध्यम से ''जहाँ है जैसे है''. ''जो यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर संचालित की जायेगी।

2. कम्पनी की आस्तियों के विषय में पूर्ण तथा विस्तृत सूचना दस्तावेज के परिशिष्ट-VI के अनुसार ''ई नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज'' में उपलब्ध है जो वेबसाइट अर्थात www.iquippo.com पर उपलब्ध है। पूर

सूचना प्राप्त करने के लिए यह बिक्री सूचना ''ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज'' के साथ पढ़ी जानी चाहिए। 3. ऑनलाइन नीलामी बिक्री के आस्तियों, ऑनलाइन ई–नीलामी संविदा प्रपत्र, घोषणा एवं वचन प्रपत्र, सामान नियम एवं शर्तों सहित पूर्ण ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाइट www.iquippo.com पर उपलब्ध हैं सम्पर्क करें : श्री प्रेमसुख, +91–8860041888 तथा premsukh@iquippo.com (लिंक www.iquip po.com पर जाकर) इच्छुक संविदाकार को निम्नलिखित दो विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करते हुए उल्लिखित कम्पनी को सर्च करना होगा : (I) कम्पनी का नाम (नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड)

4. (क) यदि ब्लॉक क हेतु न्यूनतम एक पात्र संविदाकार है तो अन्य सभी ब्लॉकों हेतु ई-नीलामी निरस्त क दी जायेगी और अन्य सभी ब्लॉकों हेतु प्राप्त ईएमडी, यदि कोई हो, सम्बन्धित संविदाकारों को वापस कर

(ख) यदि ब्लॉक क हेतु कोई पात्र संविदाकार नहीं है तो ब्लॉक ख, ग, घ तथा ङ की ई-नीलामी व्यक्तिगत

5. इच्छक संविदाकारों को अपनी संविदा जमा करने से पर्व सम्पत्ति के ऋणभारों, सम्पत्ति के स्वामित्व, बकाय स्थानीय करों, बिजली तथा पानी के प्रभारों, रखरखाव प्रभारों, लाइसेंसों, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में अपर्न स्वतन्त्र पृछताछ कर लेनी चाहिए तथा अपने व्यय पर सम्पत्ति का निरीक्षण कर लेना चाहिए और स्वयं को सन्तुष्ट कर लेना चाहिए। उपर्यक्त सम्पत्तियों का साइट पर निरीक्षण संभावित संविदाकारों द्वारा 8447079462 (सर्श्र महिमा तुलसियान) से पूर्व अनुमित लेकर किया जा सकता है।

6. इच्छक संविदाकारों को जमा धरोहर राशि (ईएमडी) या तो डीडी/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम 'नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड, परिसमापनाधीन'', खाता सं.: 0602002100319936, पंजा नैशनल बैंक, नई दिल्ली, शाखा : ओखला, आईएफएससी कोड : PUNB0060200 में या किसी अनुसूचित बैंक से आहरित ''नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड, परिसमापनाधीन'' के नाम पर डीडी के माध्यर से जमा करनी होगी अथवा सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में प्रदत्त के अनुसार प्रारूप क अथवा प्रारूप र

के अनुसार ईएमडी राशि हेतु बैंक गारंटी देनी होगी। 7. इच्छुक संविदाकारों को ई-नीलामी में भाग लेने हेतु (1) पहचान का प्रमाण (2) वर्तमान पते के प्रमाण (3) पैन कार्ड, (4) वैध ई-मेल आईडी (5) लैंडलाइन या मोबाइल फोन नम्बर, (6) परिशिष्ट 1 के अनुसा शपथपत्र तथा वचन-पत्र, (७) परिशिष्ट II के अनुसार संविदा आवेदन प्रपत्र, (८) परिशिष्ट III के अनुसार संविदाकार द्वारा घोषणा–पत्र की स्व–सत्यापित प्रति सहित ईएमडी अथवा बैंक गारंटी जमा का प्रमाण और निवेदः पत्र जमा करने होंगे, इन परिशिष्टों का प्रारूप सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज से लिए जा सकते हैं। दस्तावेज परिसमापक के कार्यालय में या ई-मेल द्वारा नीचे दिये गये पते पर 23 जून, 2021 को 7.00 बजे अप

8. ई-नीलामी में पोर्टल (www.iquippo.com) पर भाग लेने हेतु पात्र संविदाकारों के नाम का निर्धारण परिसमापक द्वारा किया जायेगा। ई-नीलामी सेवा प्रदाता (इक्विपो सर्विसेज लिमिटेड) पात्र संविदाकारों को यूज आईडी तथा पासवर्ड उपलब्ध करायेंगे। 9. यदि संविदा ई-नीलामी बन्द होने के समय के अन्तिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वत

ही असीमित विस्तार के साथ 5 मिनटों के लिए बढ़ जायेगा। जो संविदाकार ई–नीलामी प्रक्रिया बन्द होने वे समय उच्चतम बोली (आरक्षित मुल्य से कम नहीं) जमा करता है उसे सफल संविदाकार घोषित किया जायेग और इस प्रभाव से उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचित किया जायेगा जो परिसमापक के अनुमोदन के अध्यधीन 10. सफल संविदाकार की ईएमडी बिक्री वसली के भाग के रूप में रख ली जायेगी और संविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले असफल संविदाकारों की ईएमडी वापस कर दी जायेगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा

परिसमापक सफल संविदाकार को लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) जारी करेंगे और सफल संविदाकार को बिक्री राशि की बिक्री वसुली की शेष राशि (सफल संविदा राशि - ईएमडी राशि) परिसमापक द्वारा एलओआई वे निर्गमन के 30 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। एलओआई में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सफल संविदाकार द्वारा शेष राशि जमा करने में चुक करने पर सफल संविदाकार द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण राशि (ईएमडी + कोई अन्य राशि) जब्त कर ली जायेगी। 11. सफल संविदाकार को नीलामी पर रखी सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में प्रयोज्य स्टैम्प ड्यूटी/हस्तान्तरण प्रभार, शुल्व

12. परिसमापक को कोई या सभी प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा ई-नीलामी क स्थगित/आस्थगित/निरस्त करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में नीलामी कार्यवाही से किर्स सम्पत्ति या उसके किसी भाग को आहरित करने का पर्ण अधिकार है। 13. सम्पर्ण बिक्री वसली के भगतान के पश्चात बिक्री प्रमाणपत्र/अनबंध केवल सफल संविदाकार के नाम

आदि तथा समस्त स्थानीय करों, ड्यूटी, दरों, अभिनिर्धारण प्रभारों, शुल्कों आदि का वहन करना होगा।

जारी किया जायेगा और किसी अन्य के नाम में जारी नहीं किया जायेगा। 14. यह बिक्री ऋणशोधन अक्षमता तथा दिवालिया संहिता, 2016 तथा उसके तहत निर्मित विनियमों के प्रावधान के अध्यधीन होगी।

15. इच्छक संविदाकार(रों) को कम्पनी के व्यवसाय तथा प्रचालनों के डय डिलिजेंस संचालित करने के क्रम

में परिसमापक के माध्यम से कार्यरत कम्पनी द्वारा संस्थापित तथा अनुरक्षित डाटा रूम (''डाटा रूम'') क पहुंच प्रदान की जायेगी। इच्छुक संविदाकारों को ई-नीलामी तिथि तक डाटा रूम में सूचना का एक्सेस उपलब्ध कराया जायेगा। इच्छक संविदाकारों द्वारा डाटा रूम में सूचना तक पहुँच तथा उपयोग समय-समय प परिसमापक द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

16. ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 1 जुलाई, 2021 को 3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. तक (5 मिनव

आलोक कमार अग्रवाल

नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड-परिसमापनाधीन

आईबीबीआई पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P00059/2017-2018/1013' तिथि : 2 जून, 2021 पत्राचार का पता : सी-100, सेक्टर-2, नोएडा, उ.प्र.-20130 ई-मेल आईडी : nstpl@ascgroup.ir स्थान : गुरुग्राम

www.readwhere.com